



## \*प्रेसनोट / सराहनीय कार्य\*

\*(पत्रांक-264/2021 दिनांक 24.09.2021)\*

\*दिनांक- 24.09.2021 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य\*

### \*चोरी के जेवरात व नगदी 2 लाख 40 हजार रुपये के साथ तीन अभियुक्त गिरफ्तार\*

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कसया के नेतृत्व में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 23.09.2021 को थाना कसया व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा हाईवे अंडरपास ओवरब्रीजपेट्रोल पम्प देवरिया रोड कसया के पास से चोरी की घटनाओं से संबंधित अभियुक्तगण 1.राहुल गौड़ पुत्र रघुनाथ गौड़ नि0 छोटकी सपरी थाना गौरी बाजार जनपद देवरिया, 2. अखिलेश चौहान पुत्र दीनबन्धु चौहान नि0 मोहल्ला कलेक्ट्री थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर, 3. ज्वेलर्स सन्नी देओल राजभर पुत्र देवीलाल नि0 गायत्रीनगर थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। जिनके पास से 1.मु0अ0सं0 133/21 धारा 454/380 भादवि थाना कसया से सम्बन्धित सोने की चैन 2.मु0अ0सं0-298/2021 धारा 454/380 भादवि, 3.मु0अ0सं0 306/21 धारा 454/380 भादवि, 4.मु0अ0सं0 448/21 धारा 454/380 भादवि, 5.मु0अ0सं0 271/21 धारा 380 भादवि थाना कसया, 6.मु0अ0सं0 577/21 धारा 454/380 भादवि थाना कसया 7.मु0अ0सं0 136/21, 8.मु0अ0सं0 108/21 थाना हाटा जनपद कुशीनगर 9.मु0अ0सं0 226/21 थाना तुर्कपट्टी से सम्बन्धित चोरी गये रूपये कुल 2 लाख 40 हजार रू0 नगद बरामद हुआ। पूछताछ में अभियुक्तगणों ने बताया गया कि उनके द्वारा थाना कसया, थाना हाटा, थाना तुर्कपट्टी तथा थाना सहजनवा गोरखपुर में दिन में बन्द मकानों में चोरी किया जाता था तथा चोरी के माल को ज्वेलर्स सन्नी देओल राजभर पुत्र देवीलाल नि0 गायत्रीनगर थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर को बेचकर रूपया प्राप्त करते थे और नेपाल जाकर कैशीनो में जुआ आदि खेलते थे। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 683/21 धारा 411/413 भादवि पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### \*गिरफ्तार अभियुक्तगण\*

- 1.राहुल गौड़ पुत्र रघुनाथ गौड़ नि0 छोटकी सपरी थाना गौरी बाजार जनपद देवरिया
- 2.अखिलेश चौहान पुत्र दीनबन्धु चौहान नि0 मोहल्ला कलेक्ट्री थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
- 3.ज्वेलर्स सन्नी देओल राजभर पुत्र देवीलाल नि0 गायत्रीनगर थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर

### \*विवरण बरामदगी\*

एक सोने की चैन व नगदी 2 लाख 40 हजार रू0

### \*बरामदगी व गिरफ्तारी करने वाली टीम\*

1. प्र0नि0 अखिलेश कुमार सिंह थाना कसया जनपद कुशीनगर मय टीम
2. उ0नि0 अमित शर्मा प्रभारी स्वाट टीम कुशीनगर मय टीम

### \*अपहरण की घटना झूठी, स्वयं के अपहरण का षडयंत्र रचने वाला गिरफ्तार\*

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कसया के नेतृत्व में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 24.09.2021 को थाना कसया पुलिस टीम द्वारा रोडवेज कसया कुशीनगर के पास से थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0673/21 धारा 364ए से सम्बन्धित अभियुक्त प्रभात रंजन तिवारी उर्फ चन्दन तिवारी पुत्र नागेन्द्र तिवारी सा0 टीचर कालोनी सबया थाना कसया जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर मुकदमा उपरोक्त में धारा 195 भादवि की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्त उपरोक्त द्वारा स्वयं को अपहृत होने का स्वांग रचकर अपने परिजनो से 1.5 लाख रूपये की धनराशि की मांग की जा रही थी।

### \*गिरफ्तार अभियुक्त\*

प्रभात रंजन तिवारी उर्फ चन्दन तिवारी पुत्र नागेन्द्र तिवारी सा0 टीचर कालोनी सबया थाना कसया जनपद कुशीनगर

### \*गिरफ्तारी करने वाली टीम\*

1. व0उ0नि0 विवेकानन्द यादव थाना कसया जनपद कुशीनगर
2. कां0 विशाल यादव थाना कसया जनपद कुशीनगर

### अवैध शराब ब्रिकी/परिवहन/निष्कर्षण के विरुद्ध कार्यवाही-(02)

#### थाना हाटा-

थाना हाटा पुलिस टीम द्वारा एक नफर अभियुक्त जनार्दन सिंह पुत्र रामलक्षन साकिन लालीपार थाना हाटा जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर अन्तर्गत मु0अ0सं0-436/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

#### थाना रामकोला-

थाना रामकोला पुलिस टीम द्वारा एक नफर अभियुक्त जितेन्द्र पुत्र स्व0 सुरेश यादव साकिन पगार अहिर थाना रामकोला जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 30 शीशी देशी शराब बरामद कर अन्तर्गत मु0अ0सं0-297/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(02)

#### थाना पटहेरवा-

थाना पटहेरवा पुलिस टीम द्वारा एक नफर वांछित अभियुक्त संतोष यादव पुत्र रणजीत यादव सा0 भरथरी पो0 हाटा बुजुर्ग थाना उरूवां बाजार जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार कर अन्तर्गत मु0अ0सं0 348/2020 धारा 3/5ए/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधि0 में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

#### थाना नेबुआ नौरंगिया-

थाना ने0 नौ0 पुलिस टीम द्वारा एक नफर वांछित अभियुक्त बादल शर्मा पुत्र रोहित शर्मा साकिन लक्ष्मीपुर उर्फ कुर्मीपट्टी थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अन्तर्गत मु0अ0सं0 267/21 धारा 363,366 भादवि में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### वारंटियों की गिरफ्तारी-(01)

#### थाना हाटा-

थाना हाटा पुलिस टीम द्वारा एक नफर वारंटी अभियुक्त मंकाेश्वर सिंह पुत्र मिश्री सिंह साकिन महुअवा मस्जिदिया थाना को0 हाटा जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अन्तर्गत एस0टी0 न0 186/2021 मु0अ0स09 349/2018 धारा 302/201 भादवि में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

#### \*जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही\*

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा नफर 14 अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

#### \*कार्यवाही एक नजर में =\*

- 1.मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-01, ई-चालान- 114 वाहन।
- 2.107/116 में की गयी कार्यवाही-मु0-32, व्यक्ति-103
- 3.वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी-कुल-01
- 4.वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(06)
- 5.आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही मु0-02,अभि0-02, बरामदगी- 30 शीशी देश व 10 ली0 कच्ची।
- 6.जनपद में कुल गिरफ्तारी -(कुल-23)\*

\*मीडिया सेल\*  
\*जनपद कुशीनगर\*